



कौन?



कितने?




कितना लंबा?



कैसे?



कितनी देर?



दांत साफ़ करना




१. मुँह पानी से धोना



२. टूथ ब्रश पानी से धोना



३. ब्रश पर टूथपेस्ट लगाना



४. सामने के दांत साफ़ करना



५. पीछे के दांत साफ़ करना



६. जीभ साफ़ करना




७. मुँह पानी से धोना



८. मैंने खत्म कर दिया



शौचालय



१. पैंट नीचे खींचना



२. शौचालय में बैठना



३. पिछला हिस्सा धोना



४. टॉयलेट फ़्लश करना



५. पैन्ट ऊपर खींचना



६. हाथ धोना



७. मैंने ख़त्म कर दिया



नहाना



१. कपड़े निकालना




२. पानी चालू करना



३. शावर लेना



४. शरीर को भिगोना



५. साबुन लगाना



६. शम्पू लगाना



७. फेस वॉश लगाना



८. बाल धोना



९. शरीर धोना




१०. पानी बंद करना




११. बाल सुखाना



१२. चेहरा पोंछना



१३. शरीर पोंछना



१४. कपड़े पहनना



१५. मैंने खत्म कर दिया



कपड़े और सहायक चीज़ें



टोपी




हैट



बूट



ईयर मफ्स



मफलर



ग्लोव



कार्डिगन



कोट




टॉप



रात के कपड़े




जूते



फ्रॉक



बालों के साजो - सामान



शीतकालीन टोपी



जीन्स




ड्रेस



टी-शर्ट




स्कर्ट



टोपी



कुर्ता




पैंट




स्वेटर




टाइट कपड़े




लेगिंग




बेल्ट



स्कार्फ



घड़ी




चश्मा



कॅप्रिस




चप्पलें



कान की बाली



हार




कंगन




जैकेट




रेनकोट



सलवार कमीज़



मोज़े



शॉर्ट्स



अँगूठी




शर्ट




छोटा टॉप




स्लैक्स



कपड़े निकालने में मदद करे



कपड़े पहनने में मदद करे



मेरे कपड़े टाइट हैं




मेरे कपड़े ढीले हैं




बिंदी



तैयार होना



सैनेटरी नैपकिन



साबुन




शैम्पू



नाक साफ करना



मेरे नाखून काटो



फेस वाँश




कंघी करना




नींद



हीटर




एयर कंडीशनर




खिड़की



दरवाज़ा




पंखा



ठंडक



लाईट




गर्मी



बिस्तर



तकिया



कंबल



उपचार




स्पीच थेरेपी




ग्रुप थेरेपी




बाँडी वेस्ट




झूला




बाँल पिट



कंबल



स्विस बाँल




ट्रेम्पोलिन



कसरत



पैरों की कसरत



हातों की कसरत



सुबह के नियमित कार्य



१. उठना



२. चेहरा धोना



३. शौचालय जाना



४. दांत साफ़ करना



५. कपड़े उतारना




६. नहाना



७. कपड़े पहनना



८. कंघी करना



९. नाश्ता खाना



१०. डिब्बा भरना



११. पाठशाला की बॅग भरना



१२. पाठशाला जाना



१३. आपका दिन अच्छा रहे



रात के नियमित कार्य




१. रात का भोजन



२. रात के कपड़े पहनना



३. दांत साफ़ करना



४. कहानियाँ पढ़ना




५. शुभ रात्रि बोलना



६. प्रार्थना करना



७. प्यारे सपने देखो



सुबह का नाश्ता



रैप



फ़ोजन यंगर्ट



मफ़िन